



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 चैत्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 243) पटना, सोमवार, 28 मार्च 2016

सं0 21/उ.जा.रा.आ.-02/2011 सा0प्र0—4327
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

21 मार्च 2016

विषय:—“उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना” के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन-भत्ते एवं सेवा-शर्तों आदि का निर्धारण।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-12594 दिनांक 25.08.2015 द्वारा “उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना” का गठन किया गया है। इस क्रम में इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन-भत्ते एवं सेवा-शर्तों का निर्धारण विचाराधीन था।

2. सम्यक् रूपेण विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन-भत्ते, सेवा-शर्तों आदि का निर्धारण निम्नवत् करने का निर्णय लिया गया है :-

(i) वेतन एवं भत्ते :- (क) अध्यक्ष 80,000/- रु0 प्रतिमाह वेतन एवं अनुमान्य महँगाई-भत्ता प्राप्त कर सकेंगे।

(ख) अध्यक्ष से भिन्न उपाध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य 70,000/- रु0 प्रतिमाह वेतन एवं अनुमान्य महँगाई-भत्ता प्राप्त कर सकेंगे।

(ग) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति होने की स्थिति में, उन्हें वहीं वेतन-भत्ता देय होगा जो राज्य सरकार द्वारा गठित जाँच आयोग/समिति में नियुक्त होने पर सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को राज्य सरकार के अनुदेशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन अनुमान्य है।

परन्तु, यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के समय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि के तौर पर या अन्यथा सेवा-निवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहे हों, या पाने के हकदार हों, तो संकल्प में विनिर्दिष्ट वेतन में से कुल पेंशन की समतुल्य राशि जिसमें पेंशन का रूपान्तरित भाग तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के समतुल्य पेंशन की राशि भी शामिल है, घटा दी जायेगी।

(ii) सेवा की शर्तें :- (क) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति होने की स्थिति में, सेवा-शर्तें वही होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा गठित

जॉच आयोग/समिति में नियुक्त होने वाले सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की सेवा-शर्तों से संबंधित सरकारी अनुदेशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन अनुमान्य है।

(ख) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के सामान्य कार्यों का निर्वहन करेंगे।

(iii) **पदच्युत किया जाना :-** आयोग के गठन संबंधी संकल्प की कंडिका-4 (iii) (ग) में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी। यदि वे -

(अ) अनुमोचित दिवालिया हो गये हो ;

(आ) किसी ऐसे अपराध, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक-भ्रष्टता से सम्बद्ध हो, के कारण सिद्ध-दोष ठहराये गये हों तथा कारावास की सजा पा रहे हों ;

(इ) विक्षिप्त हो गये हों तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित किये जा चुके हों;

(ई) कार्य करने से इंकार करते हों या कार्य करने में अक्षम हो गये हों;

(उ) छुट्टी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना, आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे हों; या

(ऊ) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य की प्रतिष्ठा को इस रीति से कलंकित किये हों जिसके कारण उनके कार्यालय में बने रहने से संबंधित वर्गों या जनहित की क्षति होती हो ;

परन्तु वे इस खंड के अधीन तब तक अपने पद से हटाये नहीं जाएंगे, जब तक इस संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर उन्हें नहीं दिया गया हो।

(iv) **श्रेणी एवं प्रतिष्ठा :-** अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की श्रेणी एवं प्रतिष्ठा बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अनुरूप होगी।

(v) **सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर मूल सेवा से निवृत्ति :-** वैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में हों, वे आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख के प्रभाव से ऐसी सेवा से निवृत्त माने जायेंगे।

(vi) **छुट्टी :-** अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य को निम्नांकित रूप से छुट्टी अनुमान्य होगी :-

(क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पन्द्रह दिन की उपार्जित छुट्टी;

(ख) प्रति वर्ष 180 दिन की असाधारण छुट्टी।

(vii) **पेंशन :-** (क) ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहे हैं, उस सेवा में लागू नियमों के अनुसार अपनी पेंशन और सेवा-निवृत्ति लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

परन्तु, ऐसी दशा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके वेतन में से कुल पेंशन की समतुल्य-राशि, जिसमें पेंशन का रूपांतरित भाग तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के समतुल्य-पेंशन भी शामिल है, घटा दी जायेगी तथा वे अपनी पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ पृथकतः प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ख) आयोग के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को इस पद के लिए कोई पेंशन देय नहीं होगी, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद-ग्रहण करने के तुरंत पहले केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी सेवा में नहीं रहे हों।

(viii) **आवास :-** आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को आवास-सुविधा अनुमान्य नहीं होगी। उन्हें केवल आवास-किराया-भत्ता अनुमान्य होगा। आवास के विद्युत-विपत्र, अन्य करों एवं शुल्कों का भुगतान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा ही किया जायेगा।

(ix) **वाहन-सुविधा :-** अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को वित्त विभाग/बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर भाड़े का वाहन अनुमान्य होगा।

परन्तु, यदि आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य भाड़े के वाहन की जगह अपने वाहन का उपयोग करना चाहेंगे तो उन्हें रु० 20,000/- (बीस हजार) प्रति माह की दर से वाहन-भत्ता अनुमान्य होगा। ईंधन एवं चालक के मद में अलग से कोई राशि अनुमान्य नहीं होगी।

(x) **चिकित्सा-सुविधा :-** (क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को चिकित्सा-प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी। उन्हें चिकित्सा-भत्ता के रूप में प्रतिवर्ष रु० 25,000/- (बीस हजार) अनुमान्य होगा।

(ख) यह सुविधा मात्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को ही अनुमान्य होगी। उनके परिवार के सदस्यों को यह सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

(ग) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य उक्त चिकित्सा-भत्ते की राशि का उपयोग स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम-भुगतान हेतु भी कर सकेंगे।

(xi) **दूरभाष-सुविधा :-** आयोग के अध्यक्ष को दूरभाष एवं मोबाइल कूपन मद में नियत रु० 1,500/- (एक हजार पाँच सौ) प्रति माह एवं उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को रु० 1,000/- (एक हजार) प्रति माह अनुमान्य होगा।

(xii) **सत्कार-भत्ता:-** आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा-निवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति होने पर, वे उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश को देय सत्कार-भत्ता (समय-समय पर यथा पुनरीक्षित) के हकदार होंगे।

आदेश:—अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 243-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>